



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 वैशाख, 1940 (श०)

संख्या- 479 राँची, सोमवार

7 मई, 2018 (ई०)

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

आदेश

9 अप्रैल, 2018

संख्या:- 1/ठे०म०अ०(श्रमा 0)-06/2011 श्र०नि०-741-- ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) नियमावली, 1972 के नियम-25 के उपनियम (2) के खण्ड(v) के उप खण्ड(b) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रमायुक्त, झारखण्ड द्वारा ठेका श्रमिकों के सेवा शर्तों एवं मजदूरी की दरों का निर्धारण किया गया है। पुनः विभागीय आदेश ज्ञापांक 1551, दिनांक 26 अगस्त, 2015 द्वारा ठेका श्रमिकों के मजदूरी दरों में संशोधन किया गया है। इस कोटि के कामगारों को उक्त नियम से संबंधित अनुलग्नक के प्रावधान-13 (iii) के आलोक में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2018 की तिथि से अधिसूचित परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें देय होंगी।

अतः दिनांक 1 अप्रैल, 2018 की तिथि से उपर्युक्त नियम से आच्छादित ठेका श्रमिकों की मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी:-

श्रमिकों की कोटि	दिनांक-26.08.2015 से देय मजदूरी प्रतिमाह	दिनांक-26.08.2015 से देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ता	कुल
अकुशल	6550.00	854.12	7404.12
अर्द्ध कुशल	6860.00	894.54	7754.54
कुशल	9120.00	1189.24	10309.24
अतिकुशल	10450.00	1362.68	11812.68

ह०/-

उमा शंकर सिंह,
श्रमायुक्त,
झारखण्ड, राँची।
